

जनपद बाराबंकी

दिनांक-31.03.2023

मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा० न्या० अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस०एक्ट) कोर्ट नं०-10 बाराबंकी ने अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित -

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि०/कर्म०गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा० न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया० में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिससे माननीय न्यायालय अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस०एक्ट) कोर्ट नं०-10 बाराबंकी द्वारा थाना हैदरगढ पर पंजीकृत मु०अ०स० 61/2002 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त अनिल कुमार शुक्ला पुत्र राधेश्याम शुक्ला निवासी ग्राम खरावां थाना शिवरतनगंज जनपद रायबरेली को उपरोक्त धाराओं में द्वारा दोषसिद्ध करते हुये अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी ।

संक्षिप्त विवरण:-

अभियुक्तगण 1-अनिल कुमार शुक्ला, 2-रामकुमार शुक्ला पुत्र गण राधेश्याम शुक्ला निवासी ग्राम खरावां थाना शिवरतनगंज जनपद रायबरेली, 3- मो० सलीम पुत्र रहीम बक्श उर्फ मुन्ना चिकवा, 4- मो० नसीम पुत्र आयूब निवासी गण ग्राम भिलवल थाना लोनीकटरा जनपद बाराबंकी के कब्जे से 25 कुंतल 26 किलोग्राम पोस्ता छिलका बरामद होने सम्बन्धी फर्द के आधार पर थाना हैदरगढ जनपद बाराबंकी पर मु०अ०स०-61/2002 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

पुलिस टीम-

1. श्रीराजेन्द्र यादवअभियोजक अधिकारी (एनडीपीएस कोर्ट-10) जनपद बाराबंकी
- 2-निरीक्षक राजेश कुमार सिंह प्रभारी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
- 3-उ०नि० रामनरेश मिश्रा मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
- 4-हे०का०अमर बहादुर सिंह मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
- 5-म०का० प्रतिमा द्विवेदीमॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
- 6-का० नीरज कनौजिया मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
- 7-का० सन्दीप कुमार मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
- 8-हे०का० राजकुमार का० आलोक कुमार हैदरगढ पैरोकार जनपद बाराबंकी
- 9- हे०का० सुनील कुमार कोर्ट मोहर्रिर एनडीपीएस कोर्ट न०-10 बाराबंकी